

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे. नो./71/2021

दिनांक: 16 जुलाई, 2021

## प्रेस नोट

**विषय:- पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।**

पश्चिम बंगाल से राज्य सभा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति है:-

राज्य	सदस्य का नाम	कारण	रिक्ति की तारीख	पदावधि
पश्चिम बंगाल	श्री दिनेश त्रिवेदी	त्यागपत्र	12.02.2021	02.04.2026

2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त रिक्ति को भरने हेतु पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

क्र. सं.	कार्यक्रम	तारीख
1.	अधिसूचना जारी करना	22 जुलाई, 2021 (गुरुवार)
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	29 जुलाई, 2021 (गुरुवार)
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	30 जुलाई, 2021 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	02 अगस्त, 2021 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	09 अगस्त, 2021 (सोमवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7.	मतगणना	09 अगस्त, 2021 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
8.	वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	10 अगस्त, 2021 (मंगलवार)

3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-

- I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
- II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
  - (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
  - (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी।

4. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिनियुक्त करें कि उक्त उप-निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

ह./-  
(प्रफुल्ल अवस्थी)  
अवर सचिव